#### **KDDL** Limited

Kamla Centre, SCO 88-89, Sector 8-C, Chandigarh - 160 009, INDIA. Tel: +91 172 2548223/24, 2544378/79 Fax: +91 172 2548302, Website:www.kddl.com CIN-L33302HP1981PLC008123



Ref: KDDL/CS/2024-25/46

National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai - 400 051

**Trading Symbol: KDDL** 

Date: 30<sup>th</sup> August, 2024

BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

**Scrip Code: 532054** 

Subject: Newspaper Advertisement dated 29th August, 2024 relating to Notice to the eligible Shareholders for the buyback up to 2,37,837 equity shares of face value of INR 10 each ("Equity Shares") at a price of INR 3,700 by KDDL Limited (the "Company") for an amount not exceeding INR 88,00,00,000/- (Indian Rupees Eighty Eight Crores only) from the Eligible Shareholders of the Company via tender offer route, pursuant to the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, (the "Buyback Regulations") and the Companies Act 2013 (the "Companies Act"), each as amended (the "Buyback")

Dear Sir/ Madam,

Further to our letter dated 14<sup>th</sup> August, 2024 regarding public announcement for the buyback of the Company, please be informed that the Company has sent Letter of Offer dated 29<sup>th</sup> August, 2024 along with the Tender Form electronically to all Equity Shareholders / Beneficial Owners of the Equity Shares as on the Record Date (Tuesday, 27<sup>th</sup> August, 2024) who have registered their email IDs with the Company or the Depositories, in accordance with the SEBI Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable.

In this regard, the Company has published, a notice dated 29<sup>th</sup> August, 2024 for the Buyback in the following newspapers on 30<sup>th</sup> August, 2024 :

Name of the	Language	Editions
Newspaper		
Financial Express	English	All edition
Jansatta	Hindi	All editions
Dainik Savera	Hindi	Hindi edition (Hindi also being the regional language where the
		registered office of the Company is situated)

A copy of the same is enclosed for your kind reference. Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly

For KDDL Limited

Brahm Prakash Kumar Company Secretary

Registered Office: Plot 3, Sector III, Parwanoo - 173 220 (H.P.) INDIA.

**FINANCIAL EXPRESS** 

Kuttukaran | journeys with you

# Popular Vehicles & Services

POPULAR VEHICLES AND SERVICES LIMITED CIN: L50102KL1983PLC003741

Reg. Office: Kuttukaran Centre, Mamangalam, Ernakulam, Cochin, Kerala, 682025 Tel: 0484-2341134 Email ID: cs@popularv.com Website: www.popularmaruti.com

NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING OF THE COMPANY

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders of the Company will be held on Tuesday 24th September 2024 at 04.00 PM through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made there under and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No.20/2020 dated 5th May, 2020, Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 2/2021 and 2/2022 dated 8th April 2020, 13th April, 2020, 13th January, 2021 and 5th May, 2022 respectively (collectively referred to as "MCA circulars") and SEBI - HO/CFD/PoD-2/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 to transact the businesses set forth in the Notice convening the AGM. The members will be able to attend the AGM through VC/OAVM at https://www.evoting.nsdl.com/. Members participating in the meeting through VC/OAVM facility shall be reckoned for the purpose of quorum under section 103 of the Act.

In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-2024 have already been mailed to all shareholders whose email address are registered/available with the company. The dispatch of AGM Notice and Annual Report has been completed on 29th August, 2024. The aforesaid documents are also available on the website of the Company ie. www.popularmaruti.com and the websites of the stock exchanges where the shares of the Company are listed ie., www.bseindia.com and www.nseindia.com as well as on the website of National Securities Depository Limited ie. www.evoting.nsdl.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company is providing the facility to its members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on 17th September, 2024 (cut-off date) for casting their votes electronically on each item as set forth in the Notice of AGM through the electronic voting system provided by NSDL. The voting rights of members shall be in proportion to their shareholding in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date ie, 17th September, 2024. Mr. M.C. Sajumon, Company Secretary in Practice, Ernakulam, has been appointed as the scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. Further, the facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and the members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM. A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting. Information and instructions relating to e-voting have been sent to the members through email. The same login credentials may be used for attending the AGM through VC/OVAM. Detailed process and manner of Remote e-voting and e-voting at the AGM by the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email address is provided in the Notes to the AGM Notice.

The remote e-voting period commences on Saturday 21<sup>st</sup> September, 2024 (09.00 AM) and ends on Monday, 23<sup>st</sup> September, 2024, (05:00 PM). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During the remote e-voting period, members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 17th September, 2024, may cast their votes electronically. The votes once cast by the members, cannot be changed or cancelled. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date ie, 17th September, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. If the member is already registered with NSDL for e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and Password for casting the vote through remote e-voting.

In case of any queries or issues pertaining to e-voting, Members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-Voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on Toll Free No.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.com. Any query or grievance connected with the remote e-voting may be addressed to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Limited (NSDL), 301, 3tt Floor, Naman Chambers, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400051. Email: evoting@nsdl.com, 18001020990/1800224430

NOTICE is also hereby given that, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and rules made there under and the provisions of Listing Regulations, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 18th September, 2024 to Tuesday 24th September, 2024 (both days Inclusive). The final dividend of Rs.0.50/- per Equity Share of Rs. 2/-each for the financial year ended March, 31st, 2024, if declared at the AGM, will be paid within 30 days of the AGM to the shareholders whose name appear in the Register of Members on 17th September, 2024. In respect of shares held in electronic form, the dividends will be payable on the basis of beneficial ownership as per details furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for this For Popular Vehicles and Services Limited

> Varun T.V Company Secretary and Compliance Officer

POST-OFFER PUBLIC ANNOUNCEMENT TO THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

#### SUERYAA KNITWEAR LIMITED Corporate Identification Number: L17115PB1995PLC015787;

Registered Office: 408, Industrial Area-A, Ludhiana-141003, Punjab, India;

Place: Emakulam

Date: 30th August 2024

1. Name of the Target Company

Contact Number: 0161-4619272; Website: www.sueryaaknitwear.com; Email ID: sueryaa1995@gmail.com;

Open Offer for acquisition of up to 6,75,428 Offer Shares of ₹10.00/- (Rupees Ten Only) each, at an Offer Price of ₹10.00/- each of Sueryaa Knitwear Limited, the Target Company representing 26.00% of the Voting Capital of the Target Company, payable in cash, by Mr. Shallesh Miyanbazaz, the Acquirer, in accordance with the provisions of Regulations 3 (1) and 4 of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, and subsequent

This Post-Offer Public Announcement is being issued by Swaraj Shares and Securities Private Limited, the Manager to the Offer ('Manager'), on behalf of the Acquirer to the Public Shareholders of the Target Company, in connection with the Offer made and in pursuant to and in compliance with the provisions of Regulation 18 (12) and other applicable provisions under the SEBI (SAST) Regulations ('Post-Offer Public Announcement').

This Post-Offer Public Announcement should be read in continuation of, and in conjunction with the: a) Public Announcement dated Friday, April 05, 2024 ('Public Announcement'), (b) Detailed Public Statement dated Wednesday, April 10, 2024, in connection with this Offer, published on behalf of the Acquirer on Thursday, April 11, 2024, in Financial Express (English daily) (All India Edition), Jansatta (Hindi daily) (All India Edition), Mumbai Lakshadweep (Marathi daily) (Mumbai Edition), and Daily Suraj Ludhiana (Ludhiana Edition) ('Newspapers') ('Detailed Public Statement'), (c) Draft Letter of Offer dated Monday, April 15, 2024, filed and submitted with SEBI pursuant to the provisions of Regulation 16 (1) of the SEBI (SAST) Regulations ('Draft Letter of Offer'), (d) Letter of Offer dated Thursday, August 01, 2024, along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement and Form SH-4 Securities Transfer Form ('Letter of Offer'), (e) Recommendations of the Independent Directors of the Target Company which were approved on Thursday, August 08, 2024, and published in the Newspapers on Friday, August 09, 2024 ('Recommendations of the Independent Directors of the Target Company') (f) Pre-Offer cum corrigendum to the Detailed Public Statement Advertisement dated Saturday, August 10, 2024, which was published in the Newspapers on Monday, August 12, 2024 ('Pre-Offer Public Announcement') (the Public Announcement, Detailed Public Statement, Draft Letter of Offer, Letter of Offer, Recommendations of the Independent Directors, Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum to the Detailed Public Statement of the Target Company, and this Post-Offer Public Announcement are hereinafter collectively referred to as 'Offer Documents') issued by the Manager on behalf of the Acquirer. The capitalized terms used but not defined in this Post-Offer Public Announcement shall have the meaning assigned to such terms in the Offer

Sueryaa Knitwear Limited bearing corporate identity number "L17115PB1995PLC015787",

SIE		with its registered office located at 408, Industria Punjab, India.	I Area - A, Ludhiana, Ludhiana -141003,
2.	Name of the Acquirer and PACs	Mr. Shailesh Miyanbazaz, S/o Sh. Ram Prakash / Resident, bearing Permanent Account number (PA Act;1961, resident at S-225, Mahaveer Nagar, Jai	N) 'AHXPM0575A' under the Income Tax
		There are no persons acting in concert with the A	cquirer for the purpose of this Offer.
3.	Name of Manager to the Offer	Swaraj Shares and Securities Private Limited	
4.	Name of Registrar to the Offer	Skyline Financial Services Private Limited	
5.	Offer Details	75	
5.1	Date of Opening of the Offer	Tuesday, August 13, 2024	
5.2	Date of Closing of the Offer	Tuesday, August 27, 2024	
6.	Date of Payment of Consideration	The schedule date for settlement is Friday, Septer been no tendering by the Public Shareholders consideration is not required	
7.	Details of the Acquisition		21 m - 21
	Particulars	Proposed in the Offer Document (Assuming full acceptance in this Offer)	Actuals
7.1	Offer Price	₹10.00/-	₹10.00/-

		consideration is not required			
7.	Details of the Acquisition				
	Particulars	Proposed in the Offer (Assuming full acceptance)	ACTOR CONTROL STATE OF THE CONTROL OF	Actua	ls
7.1	Offer Price	₹10.00/-		₹10.00	0/-
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	6,75,428		Nil	I
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	6,75,428		Not Appli	cable
7.4	Size of the Open Offer (Number of Equity Shares multiplied by Offer Price per Equity Share)	₹67,54,280.00	V-	Nat Appli	cable
7.5	Shareholding of the Acquirer before	the Share Purchase Agreen	ent/ Public Annou	ncement	
a)	Number of Equity Shares	5,47,600		5,47,6	00:
b)	% of fully diluted Equity Share capital	21.08%		21.08	%
7.6	Sale Shares proposed to be acquired	d by way of Share Purchase	Agreement	t	
a)	Number of Equity Shares	10,91,140		10,91,1	140
b)	% of fully diluted Equity Share capital	42.00%		42.00	%
7.7	Equity Shares acquired by way of O	ffer			
a)	Number of Equity Shares	6,75,428		Nit	R
b)	% of fully diluted Equity Share capital	26.00%		Not Appli	cable
7.8	Equity Shares acquired after the Det	tailed Public Statement			
a)	Number of Equity Shares acquired	Nil		Nil	ä
b)	Price of the Equity Shares acquired	Not Applicable	8	Not Appli	cable
c)	% of Equity Shares acquired	Not Applicable	8	Not Appli	cable
7.9	Post-Offer shareholding of the Acqu	irer			
a)	Number of Equity Shares	23,14,168		16,38,7	40
b)	% of fully diluted Equity Share capital	89.08%	0000 1000 00	63.08	%
7.10	Pre-Offer and Post-Offer shareholding	g of the Public Shareholder	s (other than the	Acquirer)	
	Particulars	Pre-Offer	Post-Offer	Pre-Offer	Post-Offer

The Acquirer accepts full responsibility for the information contained in this Post-Offer Public Announcement and for his obligations specified under SEBI (SAST) Regulations.

9,59,060

36.92%

- The Acquirer will consummate the Share Purchase Agreement transaction in accordance with the provisions of Regulations 22 (1) and 22 (3) of the SEBI (SAST) Regulations and will make an application for reclassification of himself as the promoter of the Target Company in accordance with the provisions of Regulation 31A (10) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, including subsequent amendments thereto ("SEBI (LODR) Regulations").
- 10. A copy of this Post-Offer Public Announcement will be accessible on the websites of Securities and Exchange Board of India at www.sebi.gov.in, Bombay Stock Exchange Limited at www.bseindia.com, and the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER SWARAJ

Contact Number: +91-22-69649999

Date: Thursday, August 29, 2024

Place: Mumbai

Number of Equity Shares

% of fully diluted Equity Share capital

Swaraj Shares and Securities Private Limited Corporate Identification Number: U51101WB2000PTC092621

Principal Place of Business: Unit No 304, A Wing, 215 Atrium, Near Courtyard Marriot, Andheri East, Mumbai- 400093, Maharashtra, India Contact Person: Tanmoy Banerjee/ Pankita Patel

2,83,632

10.92%

9,59,060

36.92%

Email Address: takeover@swarajshares.com Investor grievance Email Address: investor.relations@swarajshares.com

SEBI Registration Number: INM00012980

Validity: Permanent

Mr. Shailesh Miyanbazaz Acquirer

9,59,060

36.92%

#### MACFOS LIMITED (CIN: L29309PN2017PLC172718) Regd. Office: S. NO. 78/1, DIGHI, BHOSARI ALANDI ROAD, PUNE.

Maharashtra, India, 411015

Email: binod@robu.in; Phone No: +919175122248, site: www.robu.in

Notice is hereby given that the 07" Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company is to be held on Saturday, 07" September 2024 at 03:00 p.m. (IST) through a two-way Video Conferencing (VC') facility / Other Audio-Visual Means ('OAVM'), to transact the business as set out in the Notice. The said Notice along with the Annual Report Financial Year (FY) 23-24 has been sent to the members holding shares as on 09/08/2024 through email at their registered email-ID. The AGM Notice and Annual Report of the Company for the FY 2023-24 is available on the

Company's website at www.robu.in and on the website of NSE Ltd at www.nseindia.com. Further, Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013("Act"), the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 31/08/2024

Pursuant to Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and SEBI circular dated 11 July 2023, the members are hereby further notified that:

- The Company is providing e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the Notice of AGM and NSDL has been appointed as e-voting service The e-voting period will commence on 04.09.2024 at 9:00 AM (IST) and ends on 06/09/2024 at
- 5:00 PM(IST) Thereafter, the e-voting module will be disabled. User ID and password for remote e-voting is sent in the email. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-up capital of the Company as on the cut-off date i.e.

31.08.2024. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it

- The Company is also offering the facility for e-voting during the AGM for the members attending the meeting, who have not cast their votes by remote e-voting. However, Members who have already cast their votes by remote e-voting before the AGM may attend the AGM but shall not be
- A member can only opt for one mode of voting i.e. either through remote e-voting or e-voting during the AGM. If any member casts a vote by more than one mode, then voting done through

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a shareholder after the dispatch

of the Annual report and holding shares as on the cut-off date i.e. 31.08.2024 may obtain login ID & password for e-voting by sending a request to evoting@nsdl.co.in. For any queries, please refer to the FAQs for Shareholders and the e-voting user manual available at www.evoting.nsdl.com. You can also contact us at 022-4886 7000 or email Mr. Abhijeet Gunjal, Manager at evoting@nsdl.com and request Mr. Abhijeet Gunjal, Manager, NSDL, 4th Floor, 'A' Wing, Trade World, Karnala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel,

For Macfos Limited Sagar Gulhane Place: Pune

Company Secretary & Compliance Officer

**APLAPOLLO** 

#### APOLLO PIPES LIMITED

Date: 16-08-2024

CIN: L65999DL1985PLC022723 Registered Office: 37, Hargobind Enclave Vikas Marg. East Delhi, Delhi 110092 India.

Corp. Office: Plot No. A-140, Sector-136, Noida-201301 Email: compliance@apollopipes.com; Website: www.apollopipes.com; Phones: 91-11-44457164/91-120-6587777

#### NOTICE OF 38™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 38" Annual General Meeting ("AGM") of the members of Apollo Pipes Limited (Company) will be held on Wednesday, 25" day of September, 2024. at 11.00 A.M. (IST) through video conference ("VC")/ Other Audio-Video Means ("OAVM"). to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) read with General Circular no. 14/2020 dated 8" April, 2020, General Circular no. 17/2020 dated 13" April, 2020, General Circular No. 02/2021 dated 13" January, 2021 and the General Circular No. 19/2021 dated 8" December, 2021, General Circular No. 21/2021 dated 14" December, 2021, General Circular No. 2/2022 dated 5" May 2022. General Circular No. 10/2022 dated 28" December 2022 and General Circular No. 09/2023 dated 25" September 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020. Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15" January, 2021, Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13" May, 2022, Circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 05" January, 2023 and Circular no. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"), for conducting AGM through /C/ OAVM, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2023-24 of the Company will be sent only by electronic mode to those members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide above referred MCA Circulars and SEBI Circulars: However, pursuant to SEBI circulars, the hard copy of annual report will be sent to those shareholders who request for the same by writing us at compliance@apollopipes.com. The aforesaid documents will also be available on the Company's website https://www.apollopipes.com/annual-report and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") (www.evotingindia.com).

Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for attending the AGM through VC and detailed manner of electronic voting are being provided in the Notice of AGM. The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") and facility of e-voting system during the AGM ("e-voting") (collectively referred as 'electronic voting") to eligible members as per applicable provisions on all the business items as set out in the Notice of AGM. The remote e-voting period commences on September 22, 2024 at 10:00 A.M. (IST) and ends on September 24, 2024 at 05:00 P.M. (IST). The members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Wednesday 18" September, 2024, may cast their vote by Remote e-voting or by e-voting on the date of AGM. Members who have not cast their votes by remote e-voting will only be able to vote at AGM through E-Voting.

# Payment of Dividend in Electronic Mode:

Shareholders holding shares in physical folios are requested to note that SEBI vide its Master Circular no. SEBI/HO/MIRSD/ POD-1/P/CIR/2024/37 dated May 7, 2024 issued to the Registrar & Transfer Agents and SEBI Circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2024/81 dated June 10, 2024, as amended, has mandated that effective April 1, 2024. dividend to the security holders holding shares in physical mode shall be paid only through electronic mode. Such payment to the eligible shareholders holding physical shares shall be made only after they have furnished their PAN, Contact Details (Postal Address with PIN and Mobile Number) Bank Account Details and Specimen Signature for their corresponding physical folios to the Company or the RTA. Therefore, shareholders having folios without PAN and KYC details, will not be issued physical dividend warrant in terms of the abovesaid SEBI Circulars. Those shareholders can get their dividend electronically only after complying with PAN, KYC details updating with the RTA of the

The Dividend for the financial year ended March 31, 2024 of ₹ 1 (one) per Equity Share having nominal value of ₹10/- each, as recommended by the Board of Directors, if declared at the AGM, will be credited within 30 days of the date of AGM after deduction of tax as per the provisions of Income-tax Act, 1961, to those Members whose names appear on the Register of Members of the Company as on Record date decided for Dividend or to their mandates. In respect of shares held by the Members in dematerialized form, dividend will be credited on the basis of details of beneficial ownership to be received from the depositories for this purpose.

Members are requested to update their KYC in their folio(s), register their email addresses. and bank account details for receipt of dividend etc. or may intimate any changes if required. The process of registering/changing the same is mentioned below:

Physical Holding

Kindly note that pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/Pod-1/P/CIR/2024/37 Dated May 07, 2024, it has been made mandatory for members holding shares of the Company in physical form, to furnish PAN and KYC details to the Company/ RTA. Members are also recommended to complete their nomination in the prescribed form. In this connection, the following forms are notified by SEBI, can be downloaded from the Company's website at

- Form ISR-1 (Request for registering PAN, KYC details or changes/ Updation thereof);
- Form ISR-2 (Confirmation of signature of Members by their
- 3. Form SH-13 (Nomination form) Register/update the details in above said prescribed Forms and

other relevant forms with Company's Share Transfer Agenti.e. M/s Beetal Financial & Computer Services (P) Limited Tel: 011-29961281-83, Fax: 011-29961284 E-mail: beetalrta@gmail.com; Website: www.beetalfinancial.com

Please contact your DP and register email address and bank In case, Demat Holding account details in your demat account, as per the process advised by

may write to compliance@apollopipes.com.

Date: August 29, 2024

Place: Delhi

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest for receiving the investor communications including Annual Report 2023-24 along with AGM Notice, by following the process referred above. For temporary registration of email for the purpose of receiving of AGM Notice (including login details etc.) along with Annual Report for 2023-24, members

If the email id is already registered with the Company/ Depository, login details for e-voting will be sent to the registered email addresses of the member. The same credentials should be used for attending the AGM through VC. For Individual Members holding shares in electronic form with Depositories viz. NSDL and CDSL should log in through the websites of NSDL and CDSL to cast the votes during the remote e-voting period. For further details and information about registration, please refer the notice of AGM.

dispatch of Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date of September 18, 2024, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of AGM or sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The Company has engaged the services of CDSL as the agency to provide the electronic

Any person who acquires shares and becomes Member of the Company after the electronic

voting facility and VC facility. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or call toll free no. 18002109911.

The Notice of AGM and Annual Report for financial year 2023-24 will be sent to members in accordance with the applicable laws on their registered email addresses in due course. By order of the Board of Directors of

> Apollo Pipes Limited Ankit Sharma

In pursuant to Annual General Meeting, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular Nos. 14/2020, 17/2020. 20/2020, 02/2021, 02/2022 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13, 2021, May 05, 2022, December

Place: New Delhi

Date: August 28, 2024

RAMA STEEL TUBES LTD. CIN: L27201DL1974PLC007114

🙆 Regd. Office : B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096

⊕ +(91)-(11)-43446600 investors@ramasteel.com www.ramasteel.com
www.ramas

#### NOTICE TO THE MEMBERS FOR 50TH ANNUAL GENERAL MEETING

28, 2022 and September 25, 2023 respectively, permitted holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Rules framed thereunder, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ["SEBI LODR Regulations"] read with Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and the above MCA Circulars, it has been decided to convene the 50th AGM of the Company on Monday, September 30, 2024 at 12:30 P.M. (IST) through VC OAVM facility, without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the relevant SEBI and MCA Circulars, the Notice of the 50th AGM and Annual Report of the Company for the Financial Year that ended on March 31, 2024, along with login details for joining the 50th AGM through VC / OAVM

facility including e-voting will be sent only by e-mail to all those Members, whose e-mail addresses are already registered with the Company or Registrar and Share Transfer Agent or with their respective Depository Participants ("DP"). Members can join and participate in the 50th AGM through VC/ OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice. Members participating through VC / OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 50th AGM and the Annual Report will also be made available on Company's website (www.ramasteel.com), Stock Exchanges' websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (www.evoting.nsdl.com). The Company is providing remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) facility to all its Members to cast

their votes on all the resolutions set out in the Notice of the 50th AGM. Detailed instructions for remote e-voting are Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of 50th AGM, Annual Report and login details for joining the 50th AGM through VC / OAVM facility

including e-voting by sending a request to M/s Bigshare Services Private Limited. Registrar and Share Transfer Agent at bssdelhi@bigshareonline.com or to the Company at investors@ramasteel.com, providing their name, folio number/DPID & Client ID, client master or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate - front and back (in the case of physical holdings), self- attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for registering e-mail address.

Any person, who acquires shares and becomes Member of the Company after the date of electronic dispatch of Notice of 50th AGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the Login ID and Password by following the instructions as mentioned in the Notice of 50th AGM or sending a request at evoting@nsdl.com.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com, or call on toll free no. at 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request at evoting@nsdl.com.

The above information is being issued for the information and benefit of all the Members of the Company and is in

compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular. For Rama Steel Tubes Limited

(Naresh Kumar Bansal) Chairman & Managing Director

# THE REPORT OF TH

Corporate Identity Number: L33302HP1981PLC008123 Registered Office: Plot No. 3, Sector III, Parwanoo - 173 220, Himachal Pradesh, India; Telephone: +91 1792 232462

Corporate Office: Kamla Centre, SCO 88-89, Sector - 8C, Chandigarh - 160 009, India. Telephone: +91 172 2548223/ 24/ 27

Contact Person: Brahm Prakash Kumar, Company Secretary and Compliance Officer Email: investor.complaints@kddl.com; Website: www.kddl.com

### NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD TO BUYBACK OF SHARES

This advertisement ("Advertisement") is being issued by KDDL Limited ("Company") to the

- Eligible Shareholders holding Equity Shares on the Record Date (i.e Tuesday, August 27, 2024) in regard to the Buyback of up to 2,37,837 (Two Lakh Thirty-Seven Thousand Eight Hundred Thirty-Seven) fully paid-up Equity Shares having face value of Rs. 10/-(Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares") on a proportionate basis through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism at a price of ₹3,700/- (Rupees Three Thousand Seven Hundred Only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 88,00,00,000/- (India Rupees Eighty Eight Crores only) excluding Transaction costs ("Buyback"). The public announcement dated Tuesday, August 13 2024 was published on Wednesday, August 14, 2024
- The Company has sent the Letter of Offer dated August 29, 2024 along with the Tender Form electronically to all Equity Shareholders / Beneficial Owners of the Equity Shares as on the Record Date who have registered their email IDs with the Company or the Depositories in accordance with the SEBI Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the SEBI Buyback Regulations, if the Company received a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer paragraph 21.23 of the Letter of Offer for further details.
- 3. The brief schedule of activities in relation to the Buyback are set out below:

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	September 2, 2024	Monday
Buyback Closing Date	September 6, 2024	Friday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents including physical share certificates (as applicable) by the Registrar to the Buyback	September 6, 2024 (by 5:00 PM IST)	Friday

For a detailed schedule of activities, please refer to page 3 of the Letter of Offer.

The details of Buyback Entitlement are as follows:

Category Indicative Entitlement Ratio of Buyb	
Reserved Category	5 Equity Shares out of every 58 Equity Shares held on Record Date
General Category	9 Equity Shares out of every 540 Equity Shares held on Record Date

\*The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved Category for Small Shareholders is 8.61605935314348% and General Category for all other Eligible Shareholders is 1.66757499121715%

- For further information on the ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 20.4 on page no. 43 of the Letter of Offer. Eligible Shareholders can also check on the website of the Registrar to the Buyback by
- following the steps given below
- a) Click on KDDL Limited Buyback
- Select the name of the Company 'KDDL Limited Buyback 2024' c) Enter your "Folio Number" / DPID-Client ID" and click on Submit
- d) The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'
- 7. A copy of the Letter of Offer (along with the Tender Form) is available on the websites of the Company (www.kddl.com), Manager to the Buyback (www.iticapital.in), Registrar to the Buyback (www.masserv.com) and is expected to available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in) and BSE (www.bseindia.com)
- 8. In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board accept full and final responsibility for all the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
- 9. Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.



MANAGER TO THE BUYBACK

ITI House, 36, Dr. R K Shirodkar Road,

Parel, Mumbai 400 012 Tel: 91 22 6911 3300 / 6911 3371

Email: kddlbuyback2024@iticapital.in

Investor Grievance Email: investorgrievance@iticapital.in

Website: www.iticapital.in

Contact Person: Pallavi Shinde

SEBI Registration Number: INM000010924 Validity Period: Permanent CIN: U74140MH1999PLC122493

Date: August 29, 2024

Place: Chandigarh

## MASS MAS Services Limited

T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Tel: +91 011- 2638 7281/82/83 / 41320335

REGISTRAR TO THE BUYBACK

Fax No.: +91 011- 26387384

Email: investor@masserv.com Investor Grievance

Email: investor@masserv.com

Website: www.masserv.com Contact person: N C Pal

SEBI registration no.: INR000000049 Validity Period: Permanent

CIN:U74899DL1973PLC006950 For and on behalf of the Board of Directors

**KDDL** Limited

Brahm Prakash Kumar Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. F7519

Company Secretary M. No. A47854

Sd/-

financialexp.epapr.in



फेस वाश ऱसाबुन ऱक्रीम

छाईया दाग घव्ये काले घेरे

सम्पूर्ण कॉस्मेटिक रेज हर प्रमुख दवा विक्रेता के वहां उपलब्ध www.wellncare.com 9896277535 & 9896134500 🔲 ਪ੍ਰਿੰਘ ਲੀਤ ਦਰਿਆ ਲਵੇਂ

# Mera

सुन्दर त्वचा, आकर्षक निखार





# मणिमहेश यात्रा मार्ग पर उपायुक्त ने किया हड़सर से दुनाली पुल तक का निरीक्षण

# क्षतिग्रस्त स्थानों को शीघ्र दुरुस्त करने के लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए

यात्रा के दौरान आवश्यक सावधानी बरतें यात्री : मुकेश रेपसवाल

## सवेरा न्यूज/महिंद्र पटियाल

भरमौर, 28 अगस्त : उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने मणिमहेश यात्रा मार्ग पर हंड़सर से दुनाली पुल तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया तथा हाल ही में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को तुरंत मुरम्मत करने बारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दुनाली में अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर निर्मित लकड़ी के पुल को अधिक मजबूत व सुरक्षित बनाने तथा गुई नाला से लेकर डिबरी - तोष का गोठ दुनाली पुल तक के रास्ते में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त विभिन्न स्थानों को शीघ्र ठीक करने के लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।

डीसी की यात्रियों से अपील उन्होंने यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं



भरमौर: डीसी मुकेश रेपस्वाल हड़सर से ऊपर पैदल रास्ते बारे चर्चा करते व दुनाली के पास नाले पर बनी लकड़ी की पुली का निरीक्षण करते डासा, एसपा आभषक यादव व कमांडट हामगांड विनाद धामान (पाटयाल)

से अपील की है कि वह इस दुर्गम यात्रा मार्ग में सफर के दौरान पूर्ण सावधानी बरतें तथा यात्रा के लिए गर्म कपडे, लाठी टॉर्च व अन्य न्यूनतम आवश्यक

वस्तुएं अपने साथ रखें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमार कुलबीर सिंह राणा कमांडेंट होमगार्ड

विनोद धीमान के अलावा लोक निर्माण विभाग के एसडीओ विशाल चौधरी तथा जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता महेश्वर सिंह भी मौजूद थे।

# एस.जे.वी.एन. के निदेशक ने बिहार के ऊर्जा मंत्री से की भेंट

शिमला, 29 अगस्त : अखिलेश्वर सिंह, निदेशक, वित्त एवं कार्मिक, एसजेवीएन ने बिहार सरकार के माननीय ऊर्जा मंत्रीए बिजेंद्र प्रसाद यादव से भेंट की। बैठक में ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल, आईएएसए 🕂 ब्रेडा के प्रबंध निदेशक नीलेश रामचंद्र देवरे, आईएएस और बक्सर थर्मल पावर परियोजना के सीईओ विकास शर्मा भी उपस्थित रहे। बैठक में एसजेवीएन द्वारा बिहार में निष्?पादित की जा रही विद्युत परियोजनाओं की प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया।

बैठक के दौरान अखिलेश्वर सिंह ने माननीय मंत्री को राज्य में एसजेवीएन द्वारा निष्?पादित की जा रही 1320 मेगावाट बक्सर थर्मल विद्युत परियोजना तथा 200 मेगावाट बिहार सौर विदयुत परियोजना की प्रगति से अवगत करवाया। ये दोनों परियोजनाएं बिहार के विद्युत अवसंरचना विकास के लिए अभिन्न अंग हैं। बिजेंद्र प्रसाद यादव ने इन



डगमारा बहुउद्देशीय परियोजना तथा बिहार में उपलब्ध जलाशयों पर फ्लोटिंग सौर परियोजना के विकासार्थ विभिन्न अवसरों पर भी विचार.विमर्श किया गया। उन्होंने एसजेवीएन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए भरपूर सहयोग की क्षमताओं और अनुभव पर विश्वास व्यक्त किया और देने का आश्वासन दिया। बैठक में, राज्य में विचाराधीन अन्य कहा कि ये परियोजनाएंए एक बार कार्यान्वित होने के महत्वपूर्ण परियोजनाओंए अर्थातय 1000 मेगावाट की पश्?चात राज्य की ऊर्जा उत्पादन क्षमता को और सुदृढ़ दुर्गावती पंप स्टोरेज परियोजना और फ्लोटिंग सौर वाली करेंगी और राष्ट्र के सततशील ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देंगी।

# धर्मशाला के 22 गांव टीसीपी में डालना सरकार का गलत निर्णय : सुधीर शर्मा

जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेगी भाजपा, ज्ञापन भेजने की तैयारी सवेरा न्यूज/यशपाल सिंह

धर्मशाला, 29 अगस्त : धर्मशाला से भाजपा विधायक व दिग्गज नेता सुधीर शर्मा ने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। गुरुवार को शिमला से जारी बयान में सुधीर शर्मा ने कहा

कि टीसीपी में 22 गांव के 1700 हेक्टेयर शामिल करके कांग्रेस सरकार ने जनता से धोखा किया है। धर्मशाला के पलम एरिया के खेत सोना उगलते हैं। धान,गेहं, नकदी सब्जियों के अलावा इनमें मिलेट्स होते हैं। शर्मा ने कहा कि पूरे हलके से हजारों लोग इसपर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर लिए गए इस फैसले से किसान, गरीब और मजदूरों में मायूसी है। गांव, किसान, गरीब और मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ 30 अगस्त 2024 शुक्रवार को धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन होगा और उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जायेगा। इस प्रदर्शन में टीसीपी में शामिल ग्रामीण एरिया के लोग भाग लेंगे। इसके बाद भी सरकार ने फैसला वापस न लिया, तो धर्मशाला की जनता

# निगुलसरी पहुंचे जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य सूर्या बोरिस

# तीन दिवंगत पत्रकारों को दी श्रद्धांजलि

हिमाचल विधानसभा में

शिमला, 29 अगस्त : हिमाचल विधानसभा में वीरवार को दिवंगत पत्रकारों को श्रद्धांजलि दी गई। 3 महीनों के छोटे से अंतराल में शिमला के तीन वरिष्ठ पत्रकारों का आकस्मिक मृत्यु हुई। बीती रात वरिष्ठ पत्रकार गौरव बिष्ट की हृदयाघात की वजह से मौत हो गई। इससे पहले बीते जुलाई माह में आनंद बोध की मृत्यु तथा जुन माह में विपिन काला की आकस्मिक मृत्य से शिमला ही नहीं हिमाचल का पत्रकारिता संसार खौफ व सदमे में है। वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तीनों दिवंगत आत्माओं को सदन में श्रद्धांजलि दी तथा ईश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।

# भूस्खलन प्रभावित नेशनल हाइवे की बहाली के कार्य

का लिया जायजा

सवेरा न्यूज/अनिल नेगी

रिकांगपिओ, 29 अगस्त : निगुलसारी समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 करीबन डेढवर्ष से भुसखलन के चलते अवरुद्ध हुआ है। ऐसे मे मौके पर राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 प्राधिकरण के कर्मचारी. अधिकारी. मजदुरों द्वारा जान जोखिम मे डालकर सडक बहाली का काम किया जा रहा है। और सड़क

पैंशनर कल्याण संघ ने निंदनीय करार दिया

है। पैंशनर कल्याण संघ ने सरकार सरकार

से इस कार्यवाही को तुरंत प्रभाव से वापस

लेने और कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए

कि हिमाचल प्रदेश सिचवालय कर्मचारी

संघ के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा ने कहा

आमंत्रित करने की मांग की है।



सडकों में उतरकर उग्र आंदोलन करेगी।

निरीक्षण करने पहुंचे डीसी किन्नौर।

अवरुद्ध से अधिक परेशान कर रही है। इसके तक कही है। वहीं डीसी किन्नौर डॉ अमित कुमार पुलिस के बहस व बेरुखी राष्ट्रीय उच्च मार्ग -5 को कवरिंग करने की इजाजत नहीं होने की बात कार्य भी शुरू किया गया है।

के दोनों और होमगार्ड व पुलिस के जवानो की अलावा कई स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को मौके शर्मा ने बताया कि जिला के निगुलसारी समीप ट्रैफिक की ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में सड़क के पर सहयोग व पत्रकारों को लोगों से बातचीत व राष्ट्रीय उच्च मार्ग .5 की बहाली हेतू प्रयासरत है दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारे भी लगी कवरिंग से भी पुलिस अधिकारियों ने रोका है।जो और पहा?ो से भुसखलन के खतरे को देखते हुए हुई है। जिसके चलते अन्य वाहनों को पुलिस प्रेस के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। और सब मौके पर पुलिस व होमगार्ड के जवानो को तैनात द्वारा भुसखलन वाले क्षेत्र की ओर जाने से रोका पत्रकारों ने इस संदर्भ में बात करने की कोशिश किया है। मौके पर मटर की ढूलाई के लिए स्पेन जा रहा है।लेकिन मौके पर परेशान लोगों के साथ की तो एक पुलिस के अधिकारी ने तो पत्रकारों इनस्टॉल किया गया है और बैंकल्पिक मार्ग का

# सचिवालय कर्मचारियों के नेताओं को 15 दिन का नोटिस भेजना निंदनीय

# हिमाचल प्रदेश सचिवालय और अन्य पैंशनर कल्याण संघ ने किया रोष प्रदर्शन



पत्रकार वार्ता करते पैंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष मदन लाल शर्मा व अन्य पदाधिकारी।

सवेरा न्यूज/कुलदीप

शिमला, 29 अगस्त : हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबंध पैंशनर कल्याण संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

सरकार द्वारा सचिवालय कर्मचारियों के नेताओं को 15 दिन का नोटिस भेजने को सरकार पर कर्मचारी और पैंशनरों को आपस में बाटने का आरोप

सरकार ने कर्मचारी और पैंशनरों को आपस में बाटने का काम कर रही है। जनवरी 2016 से दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए कमचारियों के वित्तीय लाभ संशोधित वेतनमान का भूगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सभी लाभ दिए जा रहे हैं जो एक अन्याय और पक्षपात

महासंघ द्वारा देय डीए और एरियर के लिए सरकार से जो मांग उठाई जा रही है और जो सचिवालय कर्मचारियों ने 21 व 23 अगस्त को सचिवालय में गेट मिटिंग की है उसका सर्मथन करते हैं और सिचवालय कर्मचारियों द्वारा आगामी जो रणनीति इन मांगों को मनाने के लिए बनाई जाएगी उसका पुरा सहयोग किया

है। प्रदेश का पूरा कर्मचारी वर्ग और पैंशनरर्ज इस समय सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है, सरकार फिज़्लखर्ची कर रही है। सरकार ने मंत्रियों एवं विधायकों के वेतन और भत्ते चुपके से बढा दिए हैं और कर्मचारियों के लिए खजाना खाली की बात करते हैं। इस दौरान उपप्रधान नीलम चौहान, महासचिव भूपराम वर्मा भी मौजूद रहे।

जाएगा और जब तक यह मांगे सरकार नहीं मान लेती है और कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए नहीं बलाती तब तक पैंशनर कल्याण संघ भी संघर्षरत रहेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले कल सचिवालय कर्मचारियों महासंघ के नेताओं को 15 दिन का नोटिस भेजा है।

# ननखड़ी में दूसरे दिन भी जारी रही अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया

वन विभाग ने 13 कब्जे लिए अपने अधीन

सवेरा ब्यूरो

रामपुर बुशहर, 29 अगस्त : ननखडी में दूसरे दिन भी अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्यवाही की गई। ऐसे में वन विभाग व पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच और सुबह से अवैध कब्जों को हटाने व अपने अधिन करने का कार्य किया।

जिसमें दुसरे दिन 13 अवैध कब्जों को अपने अधीन किया गया। वीरवार को यह कार्यवाही सुबह 10 बजे से शुरू हटा दिए गए थे। उसके बाद 18 कब्जे तक चलेगी। कब्जे मौजूद हैं। चार कब्जे बुधवार को किया जाएगा। यह प्रक्रिया 31 अगस्त फोर्स भी तैनात हैं।



ननखड़ी में कार्रवाई करते हुए टीम।

हुई और शाम 5 बजे तक चली। इस रहते थे। जिन में से आज 13 कब्जे

वहीं इस दौरान क्षेत्र में बीएनएसएस दौरान ननखड़ी मुख्यालयए जवाड़ला व अपने अधीन किए गए। ऐसे में अब कुल की धारा 163 भी जारी रहेगी। ताकि तडांश में अवैध कब्जों को हटाने के 5 कब्जे रहते हैं। जिन्हें हटाने के लिए कोई भी कार्य में बाधा उत्पन्न न कर सके। लिए कार्यवाही की गई। यह प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वहीं बता दें कि ननखड़ी में उच्च शुऋवार को भी जारी रहेगी। जिनमें 3 वनविभाग व पुलिस प्रशासन द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार वनविभाग ननखड़ी, एक जवाड़ला और एक तडांश कार्यवाही जारी है। ननखड़ी मुख्य द्वारा कार्यवाही 28 अगस्त से अवैध में अवैध कब्जों को हटाने का कार्य किया बाजार के अलावा दो अन्य स्थानों पर कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर जाएगा। वहीं बता दें कि ननखड़ी में 22 भी अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्य दी गई है। इस दौरान क्षेत्र में अतिरिक्त

Registered Office: Plot No. 3, Sector III, Parwanoo – 173 220, Himachal Pradesh, India; Telephone: +91 1792 232462 Corporate Office: Kamla Centre, SCO 88-89, Sector - 8C, Chandigarh - 160 009, India,

Telephone: +91 172 2548223/ 24/ 27 Contact Person: Brahm Prakash Kumar, Company Secretary and Compliance Officer Email: investor.complaints@kddl.com; Website: www.kddl.com

NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD TO BUYBACK OF SHARES

- 1. This advertisement ("Advertisement") is being issued by KDDL Limited ("Company") to the Eligible Shareholders holding Equity Shares on the Record Date (i.e Tuesday, August 27, 2024) in regard to the Buyback of up to 2,37,837 (Two Lakh Thirty-Seven Thousand Eight Hundred Thirty-Seven) fully paid-up Equity Shares having face value of Rs. 10/-(Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares") on a proportionate basis through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism at a price of ₹3,700/- (Rupees Three Thousand Seven Hundred Only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 88,00,00,000/- (India Rupees Eighty Eight Crores only) excluding Transaction costs ("Buyback"). The public announcement dated Tuesday, August 13 2024 was published on Wednesday, August 14, 2024
- The Company has sent the Letter of Offer dated August 29, 2024 along with the Tender Form electronically to all Equity Shareholders / Beneficial Owners of the Equity Shares as on the Record Date who have registered their email IDs with the Company or the Depositories in accordance with the SEBI Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the SEBI Buyback Regulations, if the Company received a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer paragraph 21.23 of the Letter of Offer for further details.
- The brief schedule of activities in relation to the Buyback are set out below:

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	September 2, 2024	Monday
Buyback Closing Date	September 6, 2024	Friday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents including physical share certificates (as applicable) by the Registrar to the Buyback	September 6, 2024 (by 5:00 PM IST)	Friday

For a detailed schedule of activities, please refer to page 3 of the Letter of Offer. The details of Buyback Entitlement are as follows:

Indicative Entitlement Ratio of Buyback\* Category Reserved Category 5 Equity Shares out of every 58 Equity Shares held on Record Date General Category 9 Equity Shares out of every 540 Equity Shares held on Record Date

\*The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved Category for Small Shareholders is 8.61605935314348% and General Category for all other Eligible Shareholders is 1.66757499121715%

- For further information on the ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 20.4 on page no. 43 of the Letter of Offer.
- Eligible Shareholders can also check on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below
- a) Click on KDDL Limited Buyback

ACKNOWLEDGEMENT'

- b) Select the name of the Company 'KDDL Limited Buyback 2024'
- c) Enter your "Folio Number" / DPID-Client ID" and click on Submit The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM
- 7. A copy of the Letter of Offer (along with the Tender Form) is available on the websites of the Company (www.kddl.com), Manager to the Buyback (www.iticapital.in), Registrar to the Buyback (www.masserv.com) and is expected to available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in) and BSE (www.bseindia.com)
- In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board accept full and final responsibility for all the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
- Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

# MANAGER TO THE BUYBACK ITI S CAPITAL LIMITED

ITI Capital Limited

Date: August 29, 2024

Place: Chandigarh

ITI House, 36, Dr. R K Shirodkar Road, Parel, Mumbai 400 012

Tel: 91 22 6911 3300 / 6911 3371 Email: kddlbuyback2024@iticapital.in Investor Grievance

Email: investorgrievance@iticapital.in

Website: www.iticapital.in Contact Person: Pallavi Shinde SEBI Registration Number: INM000010924

Validity Period: Permanent CIN: U74140MH1999PLC122493

# REGISTRAR TO THE BUYBACK

MAS Services Limited

T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Tel: +91 011- 2638 7281/82/83 / 41320335

Fax No.: +91 011- 26387384

MASS

Email: investor@masserv.com

Investor Grievance Email: investor@masserv.com

Website: www.masserv.com Contact person: N C Pal SEBI registration no.: INR000000049 Validity Period: Permanent

CIN:U74899DL1973PLC006950

For and on behalf of the Board of Directors

KDDL Limited Brahm Prakash Kumar

Company Secretary & Compliance Officer

ICSI Membership No. F7519



RAMA STEEL TUBES LTD.

CIN: L27201DL1974PLC007114

Regd. Office: B-5, 3rd Floor, Main Road, Ghazipur, New Delhi (India) - 110096 ♠ +(91)-(11)-43446600 ☐ investors@ramasteel.com ☐ www.ramasteel.com

50वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सदस्यों को सूचना

वार्षिक आम बैठक के अनुसरण में, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 02/2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 2023 के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति दी, बिना किसी साझा स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के। कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ["सेबी एलओडीआर विनियम' के अनुपालन में, 5 जनवरी 2023 के परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी – 2 / पी / सीआईआर / 2023ध और 7 अक्टूबर 2023 के सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी –पीओडी –2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 के साथ, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (''सेबी परिपत्र'') और उपरोक्त एमसीए परिपत्रों द्वारा जारी, यह निर्णय लिया गया है कि कंपनी की 50वीं एजीएम सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:30 बजे (आईएसटी) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से, एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

प्रासंगिक सेबी और एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 50वीं एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सुचना, ई-वोटिंग सहित वीसीध्ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 50वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के साथ केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते पहले से ही कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 50वीं एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। 50वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.ramasteel.com), स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (wwww.bseindia.com और www.nseindia.com) और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट (www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को 50वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग (एजीएम से पहले) और ई-वोटिंग (एजीएम के दौरान) की सुविधा प्रदान कर रही है। उक्त सूचना में रिमोट ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

जिन सदस्यों ने कंपनी या आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे 50वीं एजीएम की सुचना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने और 50वीं एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण के लिए वीसी/ओएवीएम सुविधा सहित ई-वोटिंग के माध्यम से अपना ई-मेल पता पंजीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मेसर्स बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को bssdelhi@bigshareonline.com पर या कंपनी को investors@ramasteel.com पर अनुरोध भेजना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपना नाम. फोलियो नंबर / डीपीआईडी और क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति (डीमैट होल्डिंग के मामले में), शेयर प्रमाणपत्र की प्रति – आगे और पीछे (भौतिक होल्डिंग के मामले में), पैन कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति और ई-मेल पता पंजीक त करने के समर्थन में आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित स्कैन की गई प्रति प्रदान करनी होगी।

कोई भी व्यक्ति, जो 50वीं एजीएम की सूचना के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण की तारीख के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बनता हैतथा कट—ऑफ तारीख तक शेयर धारण करता है, वह 50वीं एजीएम की सुचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

यदि आपके पास एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग सिस्टम से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यू'') और ई-वोटिंग मैन्अल देख सकते हैं, या टोल फ्री नंबर

(पर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के

अनुपालन में है। रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के लिए

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 28 अगस्त, 2024

20UIC25

का कब्जा लेंने और उसे बेचने की शक्ति भी शामिल है।

मंग सूचना

213187/-

202775/-

03-08-2024

171300/-

03-08-2024

153590/-

के भीतर स्थित है।

न्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है जक्त सुचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर भूगतान करने को कहा गया था।

मांग सूचना की तारीख

कब्जा सूचना की तिथि

26-06-2023

28.08.2024

सांकेतिक

13-07-2023

28.08.2024

सांकेतिक

26-04-2023

28.08.2024

सांकेतिक

09-01-2023

28.08.2024

सांकेतिक

25-09-2023

28.08.2024

सांकेतिक

20-11-2023

28.08.2024

सांकेतिक

25-03-2024

28.08.2024

सांकेतिक

दिनांक और

कर्जदार(शें)/जमानतदार

(रों) का नाम

(शाखा का नाम)

शाखाः टींक

एल.नं. :

SEIBTNK0376738

उधारकर्ताः राधा किशन

सह-उधारकर्ताः सोहानी

शाखाः हनुमानगढ्

एल.नंबरः

SEHNUMN0298925

उधारकर्ताः गुरदीप सिंह

सह-उधारकर्ताः

सुनीता कौर

शाखाः राजसमंद

एल.नं :

SERJMND0253518

उधारकर्ताः मुकेश माली

सह-उधारकर्ताः बागती

राम, पारस राम

शाखाः चित्तौड्गढ्

एल.नं.:

SECITOR0252356

उधारकर्ताः कैलारा रार्मा

सह-उधारकर्ताः ललिता

H

HINDUJA

HOUSING FINANCE

दिनांकः ३०.०८.२०२४, स्थानः राजस्थान,

कर्जदार / गारन्टर के नाम

एवं पता

आवेदन नं.

DL/MNR/KCPR/A000000072

श्री पुनित कुमार, रितु त्यागी और शशि

प्रभा त्यागी सभी: 9-34-X-4 ब्लॉक सी

आवेदन नं.

DL/MNR/HPUR/A000000132 &

DL/MNR/MNGR/A000000287

श्री राकेश कुमार और श्रीमती बबीता

बबीता दोनों: 461 घुआई गाजियाबाद

मोरटी मेरठ रोड गाजियाबाद, उत्तर

आवेदन नं.

DL/JNK/JNKP/A000000427

श्री अभय चावला और दीप्ति भगत

चावला दोनों: H-3/143/F/F विकास पूरी

आवेदन नं.

DL/DEL/PAND/A00000360

श्री विनोद कुमार और रानी किशोरी,

दोनों: B4/424 नंद नगरी उत्तर पूर्वी

आवेदन नं.

DL/KRB/KRBH/A000000151

श्री सुखपाल सिंह और सुमंत्रा दोनों:

मकान नं. 162 घूकना सुभाष नगर

आवेदन नं.

DL/DEL/DLHI/A000001812

श्री सोनिया शर्मा और सोनू कुमार शर्मा

दोनों: मकान नं. डी-30 पहली मंजिल

गली नं. 6 हिकिकात राय रोड आदर्श

आवेदन नं.

DL/DLS/DLSD/A000000225

श्री सरबजीत सिंह और श्रीमती दर्विदर

कीर दोनों: एफएफ-2 प्लॉट नं. 33 राघा

कृष्ण एन्क्लेव इंदर गढ़ी डासना

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201302

दिनांक : 29-08-2024, स्थान : गाजियाबाद

नगर नई दिल्ली-110033

गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201003

तिलक नगर पश्चिमी दिल्ली 110018

प्रदेश, भारत — 201003

दिल्ली - 110093

दिलशार्ड गार्डन शाधरा पूर्वी दिल्ली

(नरेश कुमार बंसल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज- II, अन्ना सलाई, चेन्नई- 600002

मांग सूचना -सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना

एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि निम्नलिखित उधारकर्ता/ओं ने इक्विटास हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (ईएचएफएल)/इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड

(ईएफएल) / इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ईएसएफबी) से ऋण लिया है। उक्त उधारकर्ता किश्तों का भगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण

खाते को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुरक्षित अचल संपत्ति / यों,ऋण और उधारकर्ता / ओं

द्वारा देय तिथि के अनुसार बकाया राशि का विवरण नीचे दिया गया है। उधारकर्ता(ओं) और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी

प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, सुरक्षित लेनदार ने सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और कथित संपत्ति से निपटने के लिए नहीं। इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के भीतर उनके नाम के सामने दर्शाई गई बकाया राशि को चुकाने में विफल

पंजीकरण जिले टोंक के भीतर स्थित है।

ने पर, अधोहस्ताक्षरी सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत किसी भी एक या अधिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जिसमें

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण

(अचल संपत्ति)

राधा किशन पुत्र हीरा लाल के नाम पर गैर कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश जो आवासीय

संपत्ति हैं, पट्टा संख्या 12, मिसल संख्या 215, बैरवो का मोहल्ला, ग्राम पंचायत– मेहंदवास, पंचायत

समिति— टोंक तहसील—टोंक, जिला टोंक, राजस्थान, जिसका माप 188.88 वर्ग गज है, उस पर

सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ और चौहद्दी :उत्तर में: राम लाल का घर, दक्षिण

में: राधेश्याम शर्मा का घर, पूर्व में: आम रास्ता; पश्चिम में: पन्ना लाल जाट का घर: माप: माप

188.88 वर्ग गज। ऋण समझौते–सह–बंधक के तहत संपत्ति उप पंजीकरण जिले टोंक और

संपत्ति हैं, जिसका पट्टा संख्या ४३, पुस्तक संख्या ६२, संकल्प संख्या ३, वार्ड संख्या ०७, ५ केएनजे,

मक्कासर पंचायत समिति – हनमानगढ, जिला हनमानगढ, राजस्थान है , जिसकी माप क्षेत्र 1321,

6 वर्ग फीट है,, उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ और **चौहदी :उत्तर में** 

छोटा सिंह के घर , दक्षिण में आम रास्ता , पूर्व में हरदीप सिंह का घर , पश्चिम में जगजीत

सिंह का घर : माप: माप क्षेत्र 1321.6 वर्ग फीट, संपत्ति ऋण समझौते-सह-बंधक के तहत

पारस राम माली पुत्र गुलाब जी माली के नाम पर गैर कृषि संपत्ति के वे सभी टुकड़े और अंश

जो आवासीय संपत्ति हैं, पट्टा संख्या ४६, पुस्तक संख्या ४६, संकल्प संख्या ०२, गांव– भीलमगरा,

ग्राम पंचायत–गोसुंडी, पंचायत समिति– आमेट, जिला राजसमंद, राजस्थान, जिसका माप क्षेत्र 660

वर्ग फीट है, उसके साथ उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना और चौहदी: उत्तर

में आम रास्ता , दक्षिण में मांगी लाल का घर, पूर्व में आम सड़क से, पश्चिम में नाली/नाला से:

मापः माप क्षेत्र 660 वर्ग फीट संपत्ति ऋण समझौते-सह-बंधक के तहत उप पंजीकरण जिला

कैलाश शर्मा पुत्र भेरू लाल शर्मा के नाम पर गैर कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश जो

आवासीय संपत्ति हैं, जिनका पट्टा संख्या 31, पुस्तक संख्या 81, संकल्प संख्या 05, आराजी संख्या

312 गांव दु बिंदोलिया, ग्राम पंचायत— उंडवा, पंचायत समिति दु गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़,

राजस्थान, जिसकी माप क्षेत्र 3445 वर्ग फीट है, के साथ उस पर सभी वर्तमान और भविष्य के

अधिरचना और चौहदी : उत्तर में आम सड़क ; दक्षिण में चोगा जी शर्मा का घर; पूर्व में लाडू जी शर्मा का घर; पश्चिम में आम सड़क से: माप: माप क्षेत्र 3445 वर्ग फीट। संपत्ति ऋण

समझौते-सह-बंधक के तहत गंगरार के उप पंजीकरण जिले और चित्तौडगढ के पंजीकरण जिले

हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड

कॉर्पेरेट कार्यालयः नं. 167-169, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600015, ईमेल: auction@hindujahousingfinance.com

एफ8, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, सेक्टर-4, महालक्ष्मी मेट्रो, वैशाली, गाजियाबाद-201010

एएलएम – अरुण मोहन शर्मा, 880089899, आरआएएम – अमित कौशिक, 9587088333, सीएलएम – धून पशिष्य – 8802967651, सीआरएम – सनोज वादन – 9560702984

सांकेतिक कब्जा सचना

त्रबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड** 

हा प्राधिकत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का नं. ३) के नियम के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गर

नेम्नलिखित कर्जदारों (तदोपरान्त कर्जेदार एवं गारटरों को संयुक्त रूप से "कर्जदार" कहा गया है) को निम्नाकित दिनांकों की मांग नोटिस जारी किया था जिसमें

र्जदार उक्त राशि का मुगतान करने मे असफल हो गये है. इसलिए एतदद्वारा कर्जदार और गारंटर तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी -

इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13(4), उक्त नियमों के नियम 8 के साध पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत

विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई

भी लेन देन **हिंदुजा हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड**, के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और उपरोक्तानुसार राशि पर संविदात्मक वर पर भविष्य का व्याज, आकरिमक

उधारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया

बकाया राशि

₹ 45,29,960/-

26-06-2023 तक

इत्यादि

₹ 17,33,206/-

दिनांक

3-07-2023 तक

प्लस ब्याज

इत्यादि

₹ 11,95,220/-

दिनांक

26-04-2023 तक

प्लस ब्याज

इत्यादि

₹ 5,31,460/-

दिनांक

25-09-2023 तव

प्लस ब्याज

इत्यादि

₹ 11,23,826/-

25-09-2023 ता

प्लस ब्याज

इत्यादि

₹ 28,72,326/-

दिनांक

प्लस ब्याज

₹ 11,50,000/-

25-03-2024 तव

प्लस ब्याज

इत्यादि

अधिकृत अधिकारी- इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

अचल सम्पतियों का विवरण

फ्रीहोल्ड संपत्ति सं. ।।।-डी / 52, सेक्टर ।। और

111, क्षेत्रफल 220.12 वर्ग मी., नशीरपुर योजना, नेहरू

नगर, गाजियाबाद-201001 में रिथत, चौहदी : पुरब में

30 फीट चौडी रोड, पश्चिम में – प्लॉट नं, 51, उत्तर

में -12 फीट चौडी गली, दक्षिण में - 40 फीट चौडी

फ्रीहोल्ड रिहायशी प्लॉट मूमि क्षेत्रफल 205 वर्ग गज

अर्थात 171.40 वर्ग मी. खसरा नं. 391 में से. गाँव डही.

परगना जलालाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद,

उत्तर प्रदेश में स्थित, चौहदी: पुरब में - 30 फीट चौड़ी

रोड, पश्चिम में – अन्य की संपत्ति, उत्तर में – प्लॉट

युनिट नं, डी-1005, टॉवर - डी, टाईप-3, कारपेट

एरिया (रेरा) 50 वर्ग मी., (541.10 वर्ग फुट के बराबर),

गोविंद पुरम एक्सटेंशन, जल निगम रोड एनएच-24,

गाजियाबाद 201017 में स्थित, प्रोजेक्ट "एसपीएलएस

रिहायशी कुल क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मी., गांव करहेड़ा

परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद युपी में

अन्य का प्लॉट, उत्तर में - रास्ता 16 फीट चौड़ा, दक्षिण

फ्री होल्ड रिहायशी प्लॉट भूमि क्षेत्रफल 39 वर्ग गज

अर्थात 32.608 वर्ग मी., खसरा नं. 1086 में से,

रिहायशी कॉलोनी जिसे अब सुभाष नगर, गाँव सिहानी

के क्षेत्र में, परगना लोनी और जिला गाजियाबाद, यू.पी.

में स्थित, चीहदी : पूरब में — राम सिंह का प्लॉट,

मकान नं. 7-9/477 और नया नं. डब्ल्युपी-7/791

क्षेत्रफल 1095 वर्ग, गज, अर्थात 91,171 वर्ग, मी., कुल

हिस्सा, मौहल्ला कन्हिया पुरा, हापुड परगना और

तहसील और जिला हापुड, गांजियाबाद, उत्तर प्रदेश में

स्थित, चौहदी: पूरव में - 6 फीट चौड़ी गली, पश्चिम में

- राजक्मार का मकान, उत्तर में – 5 फीट घौड़ी गली,

पलैट नं. एफ.एफ-2, पहली मंजिल बिना छत के

अधिकार के, सुपर कवर्ड एरिया 66.88 वर्ग मी., प्लॉट नं

इंदरगढ़ी गाजियाबाद तहसील और जिला गाजियाबाद

33, खसरा नं. 167, राधा कृष्ण एन्क्लेव, गांव डासना

प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

चौडी रोड दक्षिण में - 10फीट चौडी रोड

**20-11-2023 तक** कवर्ड क्षेत्रफल 192.342 वर्ग. मी., खसरा ने. 320 का

दक्षिण में – अन्य की संपत्ति

उत्तर प्रदेश में स्थित

पश्चिम में - श्री पप्पी की सम्पत्ति, उत्तर में - 11फीट

रिथत, चौहदी: पुरब में - अन्य का प्लॉट, पश्चिम में -

का शेष भाग, दक्षिण में - प्लॉट का शेष भाग

आवासीय योजना' में

में – ज्ञानी का प्लॉट

सरदारगढ और पंजीकरण जिला राजसमंद के भीतर स्थित है।

हनुमानगढ़ के उप पंजीकरण जिले और हनुमानगढ़ के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।

03-08-2024 गुरदीप सिंह पुत्र बच्चन सिंह के नाम पर गैर-कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश जो आवासीय

#### जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजी. कार्यालय:- 574, 2रा तल, भैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017

ई-मेल info@jmg-corp.in, वेबसाईट www.jmg-corp.in फोन नं.रू 011-41834411/41834111, सीआईएनः L55101DL1989PLC362a504

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजअल साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि **जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी")** की 35वीं वार्षिक आम बैठक **("एजीएम"**) बुधवार, 25 सितंबर, 2024 को दोपहर 12:00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) /अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जो सेबी परिपत्र दिनांक 05 जनवरी, 2023 के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र के साथ पठित परिपत्र 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021, 8 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021, 5 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना होगी, जिसने सुचीबद्ध संस्थाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजने की भी अनुमति दी है (सामृहिक रूप से परिपत्र के रूप में संदर्भित)। उक्त बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 574, द्वितीय तल, मेन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली– 110017 माना जाएगा।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए जाएंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी।

सदस्य यह भी नोट करें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसरण में और सरकार की गो-ग्रीन पहल को आगे बढ़ाते हुए, 35वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2023—24 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स, 19 सितंबर, 2024 से मंगलवार, 25 सितंबर, 2024 (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे सदस्य यह भी नोट करें कि कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की ई–वोटिंग सेवाओं का लाभ उठाएगी ताकि उसके सदस्य एजीएम की सूचना में दिए गए प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सकें। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए बुधवार, 18 सितंबर, 2024 को 'कट-ऑफ तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग की अवधि 22 सितंबर, 2024 (सुबह 9.00 बजे) (भा.मा.स.) से शुरू होगी और 24 सितंबर, 2024 (5.00 बजे) (भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान वोट डालने के लिए ई-वोटिंग प्रणाली प्रदान करेगी।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं या जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत नहीं किए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम के नोटिस मे दिए गए तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं।

किसी भी प्रश्न / शिकायत के मामले में, सदस्य http://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग मे उपलब्ध "Frequently Asked Ouestions (FAOS) for Members and participation in AGM and remote e-Voting user manual for Members" का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-4886 7000 पर कॉल करें। सदस्य कंपनी को info@jmg-corp.in पर ईमेल भी लिख सकते हैं।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग / एजीएम के दौरान वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में भी दी गयी है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट नियत समय में कंपनी की वेबसाइट www.jmg.corp.in स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और एमसीए परिपत्रों और समय-समय पर जारी सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है। कृते जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निशा कुमारी

दिनांकः 29.08.2024

स्थानः नई दिल्ली

(कंपनी सचिव एम. नं. एसीएस 44218

# वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड सीआईएन : L74899DL1993PLC056652

पंजीकृत कार्यालय : 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 दूरभाष : +91-11-25928415, 25928416

#### ई-मेल : investors@valiantcom.com, वेब : www.valiantcom.com वार्षिक आम बैठक की सुचना

एतहारा सचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम. 2013 के प्रयोज्य प्रावधानों, नियमों एवं विधिक प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रयोज्य परिपत्रों के अनुसार बैठक में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बधवार, 25 सितम्बर, 2024 को 10.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जायेगी। सदस्यों के रजिस्टर तथा शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ एजीएम के उदुदेश्य से गरुवार, 19 सितम्बर, 2024 से बधवार, 25 सितम्बर, 2024 (दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी। प्रयोज्य रेपत्रों के अनपालन में वार्षिक रिपोर्ट सहित एजीएम की सचना उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गयी जिनके ई-मेल पते कम्पनी/रजिस्टार एवं शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए)/डिपॉजिटरी पीर्टीसिपेंटस (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। सभी सदस्यों के पास एजीएम की सूचना ई-मेल द्वारा भेजने का कार्य 28 अगस्त, 2024 को समाप्त कर लिया गया है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गरिगणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

. कम्पनी एजीएम में प्रस्तावित होने वाले समस्त संकल्पों के लेन-देन पर लिंक इनटाइम इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) द्वारा प्रावधानित सुविधा तथा इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु कम्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई वोटिंग सविधा प्रदान कर रही है। एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के उपलब्ध करायी नायेगी जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम ने संकल्प पर अपना मतदान नहीं किया है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना ातदान कर लिया है वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे। ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने तथा सदस्यों द्वारा रजीएम में ई-वोटिंग की विस्तत प्रक्रिया एजीएम की सचना में उपलब्ध करायी गयी है। सभी सदस्यों को प्रचित किया जाता है कि

31वीं एजीएम में निर्धारित प्रकार्य का लेन-देने ई-वोटिंग के रूप में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान के माध्यम से किया जायेगा।

रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 21 सितम्बर, 2024 (10.00 बजे पूर्वा. भा.मा.स.) को प्रारम्भ होगी और मंगलवार, 24 सितम्बर, 2024 (05.00 बजे अप. भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके पश्चात रिमोट ई वोटिंग सुविधा एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी और संकल्प पर एक बार मतदान कर लेने के उपरान्त सदस्य को बाद में इसमें परिवर्तन करने की अनुमित नहीं दी जायेगी।

कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात बुधवार, 18 सितम्बर, 2024 तक सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वह ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान का पात्र होगा कोई व्यक्ति एजीएम की सचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह enotices@linkintime.co.in पर निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी और

सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.valiantcom.com तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा एलएलआईपीएल की वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर उपलब्ध होगी।

जेन सदस्यों को एजीएम से पूर्व या इसके दौरान ई-वोटिंग सुविधा से सम्बन्धित कोई शिकायत है तो वे इसे instameet@linkintime.co.in पर सूचित कर सकते हैं अथवा +91 (022) 49186175 पर कॉल कर सकते हैं।

यह सूचना 09 अगस्त, 2024 को प्रकाशित पूर्व की सूचना दिनांक 08 अगस्त, 2024 की निरन्तरता में है। कृते वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

मनीष कुमार कम्पनी सचिव स्थान : नई दिल्ली तिथि : 29 अगस्त, 2024 आईसीएसआई सदस्यता सं. A16483

#### इस्ट बिल्डटेक लिमिटेड सीआईएन : L74999DL1984PLC018610

पंजीकृत कार्यालय : डी-3/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज - ।।, नई दिल्ली - 110020 वेबसाइट : www.ebl.co.in, ई-मेल : secretarial@chokhani.in, contact@ebl.co.in दुरभाष : 011-47105100

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों से आयोजित होनेवाली ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड की 40वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

तदद्वारा यह सचना दी जाती है कि कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर, 2024 को अप. 01:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य दश्य—श्रव्य माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से, उस रजीएम की सचना में निर्धारितानुसार व्यवसाय के निष्पादन के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी, जिसे उचित तमय पर भेजा जाएगा। बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 व अनुसार, इस संबंध में एमसीए द्वारा जारी पिछले परिपत्रों के साथ पढें (जिसे आगे "एमसीए परिपत्र" कहा संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएफडी—पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 जिसे सेबी द्वारा जारी पिछले परिपत्रों के साथ पढें (जिसे आगे "सेबी परिपत्र" कहा जाएगा) (एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों को सामूहिक रूप में "लागू परिपत्र" कहा जाएगा) के अनुसार, कंपनियों को 30 सितंबर, 2024 तक एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 और तदांतर्गत विरचित नियमों और विनियमों के साथ पठित लागू परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 40वीं वार्षिक आम बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम र आयोजित की जा रही है। इसलिए, सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ग

वेत्तीय वर्ष 2023—24 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी. जिनके ईमेल पते कंपनी 🖊 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड कॉपी उन सदस्यों को प्रदान की जाएगी जो इसके लिए secretarial@chokhani.in, contact@ebl.co.in पर अनुरोध करते हैं। उपरोक्त प्रलेख कंपनी की वसाइट www.ebl.co.in पर स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटो www.bseindia.com पर और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") (रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध

कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजनों के लिए सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर

बक्स मंगलवार 24 सितंबर 2024 से सोमवार 30 सितंबर 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी। कंपनी अपने सदस्यों को सीडीएसएल के माध्यम से एजीएम में किए जाने वाले व्यवसायों के संबंध में एजीएम में रिमोट ई—वोटिंग और ई—वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। सोमवार, 23 सितंबर, 2024 की कट—ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना वोट डाल सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को (प्रातःकाल 9:00 बजे) आरंभ होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2024 (सायंकाल 5:00 बजे) समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग मॉड्युल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और जिन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे। ई—वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण सदस्यों को उनके पंजीकत ईमेल पते पर उपलब्ध कराया जाएगा। जिन

सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट यानी कंपनी के बीटल फाइनेंशियल कंप्यटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) या उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") के माध्यम से इसे पंजीकृत/अपडेट करवा सकते हैं और एजीएम की सूचना में निर्धारित विधि के अनुसार एजीएम में मतदान के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार, 23 सितंबर, 2024 की कट—ऑफ तिथि के अनुसवार जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर

या डिमटेरियलाइज्ड मोड या फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले लाभार्थी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज है, वह एजीएम की सचना में निर्धारित विधि के अनसार एजीएम में वोटिंग के साथ–साथ रिमोट ई–वोफिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु अधिकृत होगा। बैठक की सूचना ई–वोटिंग अनुदेशों के साथ नियत समय पर भेजी जाएगी, और ई–वोटिंग अनुदेश www.evotingindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.ebl.co.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सदस्यगण इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए, helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान की सुविधा से जुड़ी शिकायतों को दुर करने के लिए उत्तरदायी संबंधित यक्ति से संबंधित जानकारी युक्त विवरण इस प्रकार है : नाम : श्री राकेश दलवी

पता : सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड मैराथन फ्यूचरेक्स, ए—विंग 25वां तल, मफतलाल मिल्स, कंपाउंड एन.एम. जोशी मार्ग,

लोवर परेल, (पूर्व) मुंबई-400013 ई-मेल आईडी : helpdesk.evoting@cdslindia.com

दूरभाष संख्या : 022-23058738 / 022-23058542/43 शेयरधारक अपने ईमेल आईडी के पंजीकरण/अद्यतन और अन्य विषयों के लिए रजिस्ट्रार और शेयर

टांसफर एजेंट या अपने संबंधित डिपॉजिटरीज से संपर्क कर सकते हैं। उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों के लाभ के लिए और एमसीए परिपत्र(त्रों) और सेबी परिपत्र(त्रों) के अनुपालन में जारी की जा रही है।

कृते ईस्ट बिल्डटेक लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजी कार्याः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआरनंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवारोड, पुणे- 411036

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आपने नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं / गारंटरों ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर गह ऋण / संपत्ति सविधा (ओं) का लाभ उठाया है। गहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की अचल संपत्ति हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था)लिमिटेड और मूल रूप से जीई मनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित) को इसके बाद सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है। आपने द्वारा पुनर्भुगतान में चुक की है और इसलिए, आपके ऋण को गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रतिभृतिकरण की धारा 13(2) के तहत एक मांग नोटिस और वित्तीय परिसंपत्ति का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत बकाया राशि की वसूली के लिए पिछली बार भेजा गया था। हालाँकि ज्ञात पते बिना सेवा के वापस आ गए हैं। अतः धारा 13(2) के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम आपके लिए वैकल्पिक सेवा के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं, गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और दावा की गई राशि का विवरण यहां नीचे इस प्रकार दिया गया है।

क्रं.	उधारकर्ता का नाम,	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	मांग सूचना दिनांक
सं.	सह—उधारकर्ता, गारंटर और उधार की राशि	पुराबात रागात यम विवरण	देय राशि रुपये में
1	फूल सिंह, मुनेश वती	रामपुर कॉलोनी, माजरा रूपवास, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध	26 / 08 / 2024
	ऋण राशिः रु. ७,16,500 /-	नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले फ्रीहोल्ड आवासीय	₹. 8,04,303.74 / —
	ऋण संख्या	भूखंड का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, जिसका खसरा नंबर–63 है, (जिसे आगे	(आठ लाख चार हजार तीन सौ
	HF0399H20100267	संपत्ति कहा जाएगा) भूमि / फ्लैट / भूखंड की सीमाएं निम्नानुसार हैं: पूर्व— श्री	तीन और चौहत्तर पैसे मात्र) साथ में पुनर्भुगतान तक
		टेकराम का खेत, पश्चिम– सड़क 20 फीट चौड़ी, उत्तर– श्रीमती ओमवती का	15.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर
		भूखंड दक्षिण— अन्य भूखंड।''	से अतिरिक्त ब्याज।
	0 1		" 10 1 0 1 1

इसलिए आप, उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता ⁄ गारंटरों को आगे उल्लिखित मांग की गई राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है इस नोटिस के 60 दिनों वे भीतर ऊपर उल्लिखित ब्याज को पुरा करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उपर्युक्त सुरक्षा/सुरक्षाओं को लाग करने के लिए। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, इस बीच, आपको स्थानांतरित करने से रोका गया है उपरोक्त उल्लिखित प्रतिभूतियों को हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से। स्थानः दिल्ली हस्ता / –प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 30.08.2024

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व मेंपूनावाला हाउसिंगफाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

# UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम s(1)]

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पूनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सुचना जारी की थी।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पूनर्भगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है। प्रतिभत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित राशियों तथा ब्याज एवं अन्य प्रभारों/व्ययों के लिए उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा

कर्जदार/सह-कर्जदार/	अचल सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि तथा	मांग सूचना के
बंधककर्ता का नाम	का विवरण	कब्जा करने की तिथि	अनुसार राशि
1. <b>जाकिर उर्फ जाकिर</b> पुत्र जमालुद्दीन मुल्ला पारा, भुजपुरा, कोइल,	आवासीय प्लॉट का समस्त	मांग सूचना की तिथिः 03.04.2024	₹.
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 इसके अलावाः 82, हाउसिंग बोर्ड	भाग, 100.05 वर्ग गज यानि	कब्जे की तारीखः 28.08.2024	9,84,648/-
कॉलोनी, सेक्टर -3, दौराई, तहसील एवं जिला अजमेर,	83.66 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, खेत	खसरा नंबर 3302 और 3303 का हिस्सा,	तिथि
राजस्थान - 305003	मौजा कस्बा कोइल- क्क्र मुल्ला	पारा भुजपुरा के पास, परगना एवं तहसील	01.04.2024
2. <b>शहाना पत्नी जाकिर उर्फ</b> जाकिर मुल्ला पारा, भुजपुरा, कोइल,	कोइल, जिला अलीगढ़, उत्तर प्र	देश में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार	तक
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001 इसके अलावा पताः -82, हाउसिंग बोर्ड	हैः सीमाएं: पूर्वः सड़क पश्चिमः	यासीन खान का मकान उत्तरः साबिर का	
कॉलोनी, सेक्टर - 3, दौराई, तहसील एवं जिला. अजमेर,	मकान <b>दक्षिणः</b> परवीन बेगम क	। मकान यह संपत्ति जाकिर च्जाकिर यानि	
राजस्थान - 305003	आप में से नंबर 1 की है		
ऋण खाता संख्या 2269210170000077 में			
C C			0 0

तिथि: 30.08.2024 स्थानः राजस्थान अधिकृत प्राधिकारी

# + KDDL LIMITED

mber: L3330ZHP 190 IPLC000 123 Registered Office: Plot No. 3, Sector III, Parwanoo – 173 220, Himachal Pradesh, India;

Telephone: +91 1792 232462 Corporate Office: Kamla Centre, SCO 88-89, Sector – 8C, Chandigarh – 160 009, India,

Telephone: +91 172 2548223/ 24/ 27 Contact Person: Brahm Prakash Kumar, Company Secretary and Compliance Officer Email: investor.complaints@kddl.com; Website: www.kddl.com

### NOTICE TO ELIGIBLE SHAREHOLDERS IN REGARD TO BUYBACK OF SHARES

- This advertisement ("Advertisement") is being issued by KDDL Limited ("Company") to the Eligible Shareholders holding Equity Shares on the Record Date (i.e Tuesday, August 27, 2024) in regard to the Buyback of up to 2,37,837 (Two Lakh Thirty-Seven Thousand Eight Hundred Thirty-Seven) fully paid-up Equity Shares having face value of Rs. 10/-(Indian Rupees Ten only) each ("Equity Shares") on a proportionate basis through the "tender offer" route in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("SEBI Buyback Regulations") using Stock Exchange Mechanism at a price of ₹3,700/- (Rupees Three Thousand Seven Hundred Only) per Equity Share, payable in cash, for an aggregate amount not exceeding ₹ 88,00,00,000/- (India Rupees Eighty Eight Crores only) excluding Transaction costs ("Buyback"). The public announcement dated Tuesday, August 13 2024 was published on Wednesday, August 14, 2024
- 2. The Company has sent the Letter of Offer dated August 29, 2024 along with the Tender Form electronically to all Equity Shareholders / Beneficial Owners of the Equity Shares as on the Record Date who have registered their email IDs with the Company or the Depositories in accordance with the SEBI Buyback Regulations and such other circulars or notifications, as may be applicable. Further, in terms of Regulation 9(ii) of the SEBI Buyback Regulations, if the Company received a request from any Eligible Shareholder for a physical copy of the Letter of Offer, the same shall be provided. Please refer paragraph 21.23 of the Letter of Offer for further details.
- The brief schedule of activities in relation to the Buyback are set out below:

Activity	Date	Day
Buyback Opening Date	September 2, 2024	Monday
Buyback Closing Date	September 6, 2024	Friday
Last date of receipt of completed Tender Form and other specified documents including physical share certificates (as applicable) by the Registrar to the Buyback	September 6, 2024 (by 5:00 PM IST)	Friday

For a detailed schedule of activities, please refer to page 3 of the Letter of Offer.

The details of Buyback Entitlement are as follows:

Category	Indicative Entitlement Ratio of Buyback*
Reserved Category	5 Equity Shares out of every 58 Equity Shares held on Record Date
General Category	9 Equity Shares out of every 540 Equity Shares held on Record Date

\*The above Ratio of Buyback is approximate and providing indicative Buyback Entitlement. Any computation of entitled Equity Shares using the above Ratio of Buyback may provide a slightly different number due to rounding-off. The actual Buyback Entitlement for Reserved Category for Small Shareholders is 8.61605935314348% and General Category for all other Eligible Shareholders is 1.66757499121715%

- For further information on the ratio of Buyback as per the Buyback Entitlement in each category, please refer paragraph 20.4 on page no. 43 of the Letter of Offer.
- Eligible Shareholders can also check on the website of the Registrar to the Buyback by following the steps given below
  - a) Click on KDDL Limited Buyback
  - Select the name of the Company 'KDDL Limited Buyback 2024'
  - c) Enter your "Folio Number" / DPID-Client ID" and click on Submit
  - d) The entitlement will be provided in the pre-filled 'FORM OF ACCEPTANCE-CUM ACKNOWLEDGEMENT'
- A copy of the Letter of Offer (along with the Tender Form) is available on the websites of the Company (www.kddl.com), Manager to the Buyback (www.iticapital.in), Registrar to the Buyback (www.masserv.com) and is expected to available on the websites of SEBI (www.sebi.gov.in) and BSE (www.bseindia.com)
- 8. In terms of Regulation 24(i)(a) of the SEBI Buyback Regulations, the Board accept full and final responsibility for all the information contained in this Advertisement and confirms that this Advertisement contains true, factual and material information and does not contain any misleading information.
- Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the meaning ascribed to such terms in the Letter of Offer.

MASS ITI Capital Limited

**MAS Services Limited** 

T-34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area,

Tel: +91 011- 2638 7281/82/83 / 41320335 Fax No.: +91 011- 26387384

REGISTRAR TO THE BUYBACK

Email: investor@masserv.com Investor Grievance Email: investor@masserv.com

Website: www.masserv.com Contact person: N C Pal SEBI registration no.: INR000000049

Validity Period: Permanent CIN:U74899DL1973PLC006950

For and on behalf of the Board of Directors KDDL Limited

Brahm Prakash Kumar Company Secretary & Compliance Officer ICSI Membership No. F7519

## B ITI CAPITAL LIMITED

MANAGER TO THE BUYBACK

ITI House, 36, Dr. R K Shirodkar Road, Parel, Mumbai 400 012

Tel: 91 22 6911 3300 / 6911 3371 Email: kddlbuyback2024@iticapital.in Investor Grievance

Email: investorgrievance@iticapital.in Website: www.iticapital.in

Contact Person: Pallavi Shinde SEBI Registration Number: INM000010924

Validity Period: Permanent

CIN: U74140MH1999PLC122493

Date: August 29, 2024

www.readwhere.com

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30 अगस्त, 2024

सद. सं. एसीएस-45885

कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

हस्ता./-

अर्पित शर्मा

Place: Chandigarh

Chandigarh